



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 513] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 1981/कार्तिक 28, 1903
No. 513] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 1981/KARTIKA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भ्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1981

अधिलेखना

का० प्रा० 803 (अ).—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो कृषि के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के उन प्रवर्गों को संदेय हैं, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, पुनरीक्षित करने के लिए की गई निम्नलिखित प्रस्थापनाएँ उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाानुसार, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित की जाती और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्थापनाओं पर इस अधिलेखना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अधिलेखना की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रस्थापनाओं की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार उस पर विचार करेगी।

अनुसूची

कर्मचारियों के प्रवर्ग

प्रतिवित्त मजदूरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दरें

क्षेत्र-क	क्षेत्र-ख 1	क्षेत्र-ख-2	क्षेत्र-ग	क्षेत्र-घ
र० प०	र० प०	र० प०	र० प०	र० प०
1	2	3	4	5

अनुसूची

- (1) जेलवार (पुष्प/स्त्री), (2) काफ बाय, (3) पशुपालन, (4) बीबीवार, (5) क्लीनर (6) क्लीनर (मोटर, ग्रेड ट्रैक्टर, पशुशाला, एम०टी०), (7) खुला बाग एकत्रित करना, (8) डेरीकुली, (9) डेरी बाला, (10) स्टोक खोलना (11) ड्रेसर, (12) गाड़ीवाल (वैल: खण्ड) (13) कीडर (ग्रबल्ट) सूखी

1	2	3	4	5	6
भास (14) घा काटने वाला (15) चरवाहा, (16) मददगार, (भण्डार-मजदूर), (17) श्रमिक (बायलर), पशुशाला, खेती, साधारण, बदाई और उतराई बंडल बनाना, डोना, उर्वरक, कटाई, प्रकीर्ण, बीजन, बुलाई, छप्परछाना, प्रतिरोपण, निराई (18) माली, (19) मजदूर (वृक्ष, संवर्द्धक, कम्पोस्ट, डेरी, घास का चट्टा लगाना, सिंचाई, खाद, चट्टा लगाना, दुग्धवध, राशन वध, भण्डार, मलेरिया रोधक, (एम० प्रार०), (20) संदेशवाहक (कार्यालय), (21) चपरासी, (22) सईस, (23) खुली घास बंधना और डोना (24) झाड़ूकश, (25) गांठें तोलना और डोना, (26) तोलने वाला गांठ, पल्ली, (27) पानी वाला, (28) अस्तबल वाला, (29) ट्रौली वाला (30) कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल प्रकार के हैं	8.75	8.00	7.25	6.50	6.00

अर्धकुशल/अकुशल/पर्यवेक्षीय :

(1) सहायक (चौधरी), (2) परिचारक सांड व्याना-स्थल, कुट्टी मशीन, छात्रावास, सूखा स्टोक अनाज-शेणर, पम्प, रोगी-पशु स्थल, अस्तबल, यार्ड पशुधन (3) सहायक (पलम्बर), (4) परिचारक, (5) भिखी (6) ब्रांडर, (7) सांड वाला (8) मन्खनवाला, (9) कोचवान, (10) मोची, (11) कृषक, (12) दफ्तरी, (13) पत्र-वितरक, (14) घोबी, (15) ड्रेसर, (16) फेरिअर, (नाल लगाने वाला) (17) फीडर, (18) फायरमैन, (19) ग्वाला, (20) हथोडावाला, (21) मददगार, (लोहार), (22) मददगार, (23) जमादार (संतरी), (24) जमादार, (25) खलासी, (26) माली, (ज्येष्ठ), (27) मेट/मिस्त्री, (28) मजदूर (शिक्षित), (29) नालबन्द, (30) तेलवाला, (31) हलवाहा, (32) चट्टा लगाने वाले, (33) पर्यवेक्षी, (34) छप्पर छाने वाला, (35) वाल्वमैन (36) वाल्वमैन (ज्येष्ठ), (37) तोलनेवाला, (38) तार काटने वाला, (39) तार मिस्त्री टिन केबल डालने वाला, (40) कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्धकुशल प्रकार के हैं	11.00	10.00	9.00	8.25	7.50
--	-------	-------	------	------	------

कुशल :

(1) कारीगर (वर्ग II, III, IV), (2) लोहार, (3) लोहार (वर्ग II), (4) बायलरमैन, (5) बड़ई, (6) बड़ई वर्ग II, (7) बड़ई-एवं-लोहार, (8) चौधरी, (9) चालक, (10) चालक, (इंजन, ट्रैक्टर, एम०टी० मोटर), (11) बिजली मिस्त्री, (12) फिटर, (13) राज, (14) राज, (वर्ग II), (15) मशीन हैंड, (वर्ग II, III, IV), (16) मशीन वाला, (17) मेट श्रेणी-I (ज्येष्ठ) (18) मैकेनिक, (19) दुग्ध राइटर, (20) मिस्त्री, प्रधान, (21) मोल्डर, (22) उपस्थित राइटर, (23) प्रचालक (नलकूप), (24) पेंटर, (25) पलम्बर (नल-साज), (26) वेल्डर, (27) गद्दीवाला, (28) तार मिस्त्री, (29) कोई अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकार के हैं	14.00	12.75	11.50	10.50	9.50
--	-------	-------	-------	-------	------

अति-कुशल :

(1) कारीगर वर्ग-I, (2) लोहार वर्ग-I, (3) बड़ई वर्ग-I, (4) मशीन हैंड, वर्ग-I, (5) राज वर्ग-I, (6) मैकेनिक ज्येष्ठ, (7) कोई अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अति कुशल प्रकार के हैं	17.50	16.00	14.50	13.00	12.00
---	-------	-------	-------	-------	-------

लिपिक वर्ग :

(1) सहायक, (फार्म), (2) सहायक, (3) रोकड़िया, (4) लिपिक, (5) मंशी, (6) रजिस्टर पाल, (7) स्टोरकीपर (भण्डारी), (8) समय-पाल (टाइम कीपर), (9) टाइपिस्ट, (10) किसी भी नाम से कहलाने वाले कोई अन्य प्रवर्ग, जो लिपिक वर्ग प्रकार के हैं	14.00	12.75	11.50	10.50	9.50
--	-------	-------	-------	-------	------

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(1) (क) क्षेत्र ए०, बी०-1, पी०-2 और सी० में वे सभी स्थान समाविष्ट होंगे जो इस अधिसूचना के उपाबन्ध में ऐसे क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट हैं और जिनमें निगमों या नगर पालिकाओं या छावनी बोर्डों या किसी विशिष्ट स्थान की अधिसूचित क्षेत्र समिति के उपान्त क्षेत्र से 8 किलोमीटर की दूरी के अन्दर के सभी स्थान सम्मिलित होंगे, तथा क्षेत्र डी० में वे सभी स्थान समाविष्ट होंगे जो उपाबन्ध में वर्णित नहीं हैं और जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का विस्तार नहीं है।

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	मुम्बई	नागपुर पूना	बोलापुर, नासिक	अचलपुर नगर समूह, अहमद नगर, अकोला, अमलनेर, अंबरनाथ, अमरा- वती, औरंगाबाद, बारसी, भिवंडी, भुसावल, चांदा, चन्द्रपुर, धुलिया दौम्बवलि, गोडिया, इच्छलका रंजिया, जलगांव, जालना, कल्याण, कामटी, खामगांव, कोल्हापुर, लातूर, मालेगांव, नांदेड, नन्दुरवार, नासिकरोड, देवलाही, पंढरपुर, परगनी, पिंपरी, चिंचवाड, सांगली, मिराज, सतारा, उल्हासनगर, यवतमाल, वर्धा।
उड़ीसा]	---	---	राउरकेला	बालासोर, बेहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, पुरी, सम्बलपुर।
पडिचेरी	---	---	---	पांडिचेरी।
पंजाब	---	---	अमृतसर लुधियाना	अबोहर, बटाला, भटिंडा, फिरोजपुर, होशियारपुर, जलंधर, मालेरकोटला, मोगा, पठानकोट, पटियाला, फगवाड़ा।
राजस्थान	---	---	जयपुर अजमेर	अलवर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बुरु, गंगानगर, जोधपुर, कोटा, सीकर, टोंक, उदयपुर।
बिमलनाडू	मद्रास	---	कोयम्बटूर, मडुरै, सलेम, तिरुचिरापल्ली (तिरुचिरापल्ली)	अम्बूर, अरुपुक्कोटाई, बोडीनयाकानूर, चिदम्बरम, कुड्डलूर, डिडीगल इरोड, गुड्डोय- थम काडयानालूर, कांचीपुरम, कराईकुडी, करूर, कोविलपट्टी, मयूरम, कुम्बाकोनम, मेट्टुपालयम, नागापट्टिनम, नागरकोइल पलयामकोट्टाई, पोल्लोची, पुडुकोट्टाई, राजापलयम, शिवकासी, श्रीरंगम, श्रीविल्ली- पुट्टूर, तांबरम, थंजावूर, (संजौर), टिडीवानम, तिरुनेलवेली, तिरुपुर, तिरुवन्नमलाई, तूतीकोरिन, बालपरई, वनियमबोडी, बेलोर, बिल्ली- पुरम, विरुधनगर।
उत्तरप्रदेश	---	कानपुर मथनऊ	आगरा, इलाहाबाद, बाराणसी (बनारस), मेरठ	अलीगढ़, (कोइल अलीगढ़), अमरोहा, बलिया, बहराइन, बांदा, बरेली, बस्ती, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौसी, देहरादून, इटावा, फैजाबाद-एवं-अयोध्या, फर्रुखाबाद-एवं-फतेहगढ़, फतेहपुर, फीरोजाबाद, गाजियाबाद, गजौपुर, गोंडा, गोरखपुर, हल्दवानी-एवं-काठगोदाम, हपुड़, हरदोई, हरिद्वार, हाथरस, जौनपुर, झांसी, खजूर, कासगंज, मथुरा, मऊनाभिजन, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, रुड़की, सहारनपुर, संभल, शाहजहांपुर, सीतापुर।
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	---	आसनसोल, दुर्गापुर	बैद्यवती, बाल्ली, बनगांव, बांकुरा, बांसवेडिया, बैरकपुर, बसौरहाट, बरहाम- पुर, भाटापाड़ा, ब्रजबज, बर्धवान, चिकडाह, चमदानी, चन्दनराग, कूचबिहार, इंगलिश बाजार, हालीशहर, हुगली, बिन्सूरा, जलपाईगुड़ी, कमरझठी, कंचन पाड़ा, खड़गपुर, कृष्णनगर, मिदनापुर, नवादीप, लईहाटी, नार्थ डमडम, पतिहाटी, पुरलिया, रानाघाट, रिशरा, शांतिपुर, सैरमपुर, सिलीगुड़ी, टीटागढ़, उत्तरपाड़ा कोटरंग।
गोवा, दमन और दीव	---	---	गोवा	मांसूगोआ।

[सं० एस-32019 (6)/80-डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू०)]

शशि भूषण, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 1981

S.O.803(E).—The following proposal made by the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) for revising the minimum rates of wages as specified in column 2 of the schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in the employment in Agriculture specified in the corresponding entries in column 1 of said schedule, are hereby published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said proposal shall be taken into consideration on or after the expiry of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said proposal before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

Categories of employees	All inclusive minimum rates of wages per day				
	Area A	Area B1	Area B2	Area C	Area D
	Rs. p.	Rs. p.	Rs. p.	Rs. p.	Rs. p.
1	2	3	4	5	6
Unskilled :					
1. Beldar; 2. Calf boy; 3. Cattleman; 4. Chowkidar; 5. Cleaner 6. Cleaner (motor, shed; Tractor; Cattle yard M.T.) 7. Collecting horse fodder; 8. Dairy coolie; 9. Dairy-man; 10. Dismantling stocks; 11. Dresser; 12. Driver (bullocks; mule); 13. Feeder (adult) hay; 14. Grass cutter; 15. Grazler; 16. Helper (Stone-mazdoor); 17. Labourer: (boiler; Cattle yard; Cultivation; General; Loading and unloading; bundling; Carting; Fertilizers; Harvesting; Miscellaneous; Seeding; Sowing; Thatching; Transplanting; Weeding); 18. Mali; 19. Mazdoor (Arboriculturist); Compost; Dairy's haystakeing; Irrigation; Manure; Stacking; Milk room; Ration room; Store; Antimalaria; M.R.); 20. Messenger (office); 21. Peon; 22. Syce; 23. Tying & Carrying loose hay; 24. Sweeper; 25. Weighing and carrying bales; 26. Weighman (bales; pally); 27. Waterman; 28. Stable man; 29. Trolley man; 30. Any other categories by whatever name called which are of unskilled nature	8.75	8.00	7.25	6.50	6.00
Semi-Skilled/Unskilled supervisory :					
1. Assistant (Chowdhary); 2. Attendant (bull; calving lines; Chaff cutter; Hostel; Dry stock; Grain crusher; Pump; Sick-line; Stable; Yar; Stock); 3. Assistant (Plumber); 4. Attendant; 5. Bhisti; 6. Brander; 7. Bullman; 8. Butterman; 9. Coachman; 10. Cobbler; 11. Cultivator; 12. Daftry; 13. Delivery man; 14. Dhobi; 15. Dresser; 16. Farriar; 17. Feeder 18. Fireman; 19. Gowala; 20. Hammerman; 21. Helper; (Blacksmith) 22. Helper; 23. Jamadar (stand); 24. Jamadar; 25. Khalasi; 26. Mali (senior) 27. Mate/Mistry; 28. Mazdoor (literate); 29. Nalband; 30. Oilman; 31. Ploughman; 32. Stackers; 33. Supervisor; 34. Thatcher; 35. Valveman; 36. Valveman (senior); 37. Weighman; 38. Wire cutter 39. Wireman fixing tin cables; 40. Any other categories by whatever name called which are of a semi-skilled nature	11.00	10.00	9.00	8.25	7.50
Skilled :					
1. Artificier (Class II, III, IV); 2. Blacksmith; 3. Blacksmith (Class II); 4. Boiler man; 5. Carpenter; 6. Carpenter Class II; 7. Carpenter cum-Blacksmith; 8. Chowdhary; 9. Driver; 10. Driver (Engine Tractor; M.T.; motor); 11. Electrician; 12. Fitter; 13. Mason; 14. Mason Class II; 15. Machine hand (Class II, III, IV). 16. Machineman; 17. Mate Gr. I (Senior); 18. Mechanic; 19. Milk writer; 20. Mistry (Head); 21. Moulder; 22. Muster writer; 23. Operator (tube-well); 24. Painter; 25. Plumber; 26. Welder; 27. Upholsterer; 28. Wireman; 29. Any other categories by whatever name called which are of a skilled nature	14.00	12.75	11.50	10.50	9.50
Highly Skilled :					
1. Artificier Class I; 2. Blacksmith Class I; 3. Carpenter Class I; 4. Machine hand Class I; 5. Mason Class I; 6. Mechanic (senior); 7. Any other categories by whatever name called which are of highly skilled nature	17.50	16.00	14.50	13.00	12.00
Clerical :					
1. Assistant (Farm); 2. Assistant; 3. Cashier; 4. Clerk; 5. Munshi; 6. Register keeper; 7. Storekeeper; 8. Time keeper; 9. Typist; 10. Any other categories by whatever name called which are of a clerical nature	14.00	12.75	11.50	10.50	9.50

EXPLANATION:—For purposes of this notification—

1. (a) Areas A, B-1, B-2 and C mentioned in annexure to this notification shall respectively comprise all the places as specified in the said annexure as such areas, and include all places within a distance of eight Kilometres from the periphery of a Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board or Notified Area Committee of a particular place; and areas D shall comprise of all the other places not mentioned in the annexure and to which the Minimum Wages Act, 1948 extends.

(b) The places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purpose of payment of city compensatory allowance to Central Government employees shall also be taken to be added from such dates for the purpose of classification specified in the annexure.

2. Where in any area the minimum rates of wages fixed under this notification are lower than the minimum rates of wages fixed by the State Government for employees in the scheduled employment of agriculture in respect of which it is the appropriate Government, the higher rate shall be payable as minimum wage under this notification.

3. (a) Unskilled work means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) Semi-skilled work means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and, includes unskilled supervisory work;

(c) Skilled work means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as a apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement;

(d) Highly skilled work means work which calls for a degree of perfection and full competence in the performance of certain task acquired through intensive technical or professional training or practical work experience for long years and also requires of a worker to assume full responsibility for the judgement or decisions involved in the execution of these tasks.

4. The minimum rates of wages shall consist of all inclusive rates; and include also the wages for weekly day of rest.

5. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

6. (a) The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age shall be 80% of the rates payable to adult workers of the appropriate category;

(b) The minimum rates of wages for disabled persons shall be equal to those of able bodied persons of appropriate category.

ANNEXURE

Name of the State/Union		CLASS OF CITIES/TOWNS			
Territory	A	B-1	B-2	C	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Andhra Pradesh	Hyderabad	—	Vijayawada (Bezawada) Visakapatnam (Vizagapatam)	Adoni, Anakapalle, Anantapur, Bandar, (Masulipatam) Bheemavaram, Chirala, Chittoor, Cuddapah, Eluru, Gudivada, Guntakkal, Guntur, Kakinada, Karim Nagar, Kammam Kothagudem, Kurnool, Mahbubnagar, Nandyal, Nellore, Nizamabad, Ongole, Proddatur Rajamahendravaram, Srikakulam, Tenali, Vizianagaram, Warangal, Tirupati, Vijayapuri.	
Assam	—	—	Gauhati	—	
Bihar	—	—	Patna, Dhanbad, Jamshedpur	Arrah, Bettiah, Bhagalpur, Bokaro Steel city, Bihar Shariff, Chapra, Darbhanga, Dinapur,, Gaya, Hazaribagh, Kathiari, Monghyr, Jamalpur, Muzaffarpur, Purnea Ranchi.	
Chandigarh	—	—	—	Chandigarh.	
Delhi	Delhi	—	—	—	
Gujarat	Ahmedabad	—	Surat, Vadodara (Baroda) Bhavanagar, Rajkot	Anand, Bhuj, Broach, Cambay, Dhoraji, Godhra, Gondal, Jamnagar, Junagarh, Kalol, Mehsana, Morvi, Nadiad, Navsari, Patan, Porbandar, Surendranagar, Veraval.	
Haryana	—	—	—	Ambala, Bhiwani, Faridabad, Gurgaon, Hissar, Karnal, Kaithal, Panipat, Rohtak, Sirsa, Sonapat, Yamunanagar.	
Jammu & Kashmir	—	—	Srinagar Jammu	—	
Karnataka	Bangalore	—	Hubli, Dharwar, Mysore.	Bagalkot, Belgaum, Bellary, Bhadravati, Bidar, Bijapur, Chitradurga, Davangere, Gadag Betgari, Gulbarga, Hassan, Hospet, Kolar Gold Fields, Mandya, Mangalore, Raichur, Shimoga, Tumkur.	
Kerala	—	—	Cochin, Trivandrum, Alwaye, Calicut (Kozhikode).	Alleppy, Badagar, Cannanore, Changana-cherry, Kayamkulam, Kottayam, Palghat Tellicherry, Trichur, Quilon.	
Madhya Pradesh	—	—	Indore, Jabalpur, Bhopal, Bilai, Gwalior (Laskar).	Bilaspur, Burhanpur, Chhindwara, Damoh, Dewas, Durg, Itarsi, Khandwa, Mandsaur, Mhow (Cantt), Morena, Murwara, Neemuch, Raigarh, Raipur, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna, Ujjain, Vidisha.	
Maharashtra	Bombay	Nagpur, Poona, Pimpri-Chindwada	Solapur, Nasik.	Achalpur Town Group, Ahmednagar, Akola, Amalner, Ambarnath, Amravati, Aurangabad, Barsi, Bhivandi, Bhusawal, Chanda, Chandrapur, Dhulia, Dombivli, Gondia, Ichalkaranjia, Jalgaon, Jalna, Kalyan, Kamptee, Khamgaon, Kolhapur, Latur, Malegaon, Nanded, Mandurbar Nasik Road, Deolali, Pandharpur-Parbhani, Sangli, Maraj, Satara, Ulhasnagar, Yeotmal, Wardha.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Orissa	—	—	Rourkela	Balasore, Behrampur, Bhubaneswar, Cuttack, Puri, Sambalpur.
Pondicherry	—	—	—	Pondicherry.
Punjab	—	—	Amritsar, Ludhiana.	Abohar, Batala, Bhatinda, Ferozepur, Hoshiarpur, Jullundur, Malerkotla, Moga, Pathankot, Patiala, Phagwara.
Rajasthan	—	—	Jaipur, Ajmer	Alwar, Beawar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Churu, Ganganagar, Jodhpur, Kota, Sikaer Tonk, Udaipur.
Tamil Nadu	Madras	—	Coimbatore, Madurai, Salem, Tiruchirapally (Trichinapoly).	Ambur, Aruppukottai, Bodinayakanur, Chidambaram, Cuddalore, Dindigul, Erode, Gudiyatham, Kadayanallur, Cancheepuram, Karaikudi, Karur, Kumbakonam Mayuram, Nagapattinam, Nagercoil, Palayamcottai, Pollachi, Mettupalayam, Pudukotai, Rajapalyam, Siva, kasi, Srirangam, Srivilliputtar, Tambaram, Thanjavur, (Tanjore), Tindivanam, Tirunavelli Triuppur, Tiruvannamalai, Tuticorin, Valparai, Vaniyambodi, Vellore, Villipuram, Virudhunagar.
Uttar Pradesh	—	Kanpur, Lucknow	Agra, Allahabad, Varanasi (Benaras) Meerut.	Aligarh (Koil Aligarh), Amroha, Balia, Bahraich Banda, Bareilly, Basti, Badaun, Bulandshahar, Chandausi, Dehra Dun, Etawah, Faizabad-cum-Ayodhya, Farukhabad-cum-Fatehgarh-Fatehpur, Ferozabad, Ghaziabad, Ghazipur, Gonda, Gorakhpur, Haldwani-cum-Kathgodam, Hapur, Hardoi, Hardwar, Hathras, Jaunpur, Jhansi, Khurja, Kasganj, Mathura, Maunath, Bhanjan, Mirzapur, Moradabad, Muzaffarnagar, Pilibhit, Rampur, Roorkee, Saharanpur, Sambha, Shahjahanpur, Sitapur.
West Bengal	Calcutta	—	Asansol, Durgapur.	Paidyabati, Bally, Bangaon, Bankura, Bansbaria, Barrackpur, Bhatpara, Basirhat, Berhampur, Budge Budge, Burdwan, Chakdaha, Chamdani, Chaudernagore, Cooch-Bihar, English Bazar, Haldigha, Hooghly-Chinsura, Jalpaiguri, Kamarhati, Kanchnapara, Kharagpur Krishna nagar, Midnapur Nabadwip, Maihat, North Dum Dum, Panhati, Purulia, Ranaghat, Rishra, Santipur, Serampur, Siliguri, Titagarh Uttarpara, Kotrung.
Goa Daman and Diu.	—	—	Goa.	Marmagao.

[S-32019/6/80-WC(MW)]

SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

